



मानवसंसाधन/मानव संसाधन अनुभाग/HUMAN RESOURCES SECTION

भारतीय विज्ञान संस्थान/भारतीय विज्ञान संस्थान/INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE

बंगलूरु/बंगलूरु/ BANGALORE – 560012

दूरभाष/दूरभाष/ TELEPHONE : 2293 2493

ई-मेल/E-mail/ईमेल : recruitment.council@iisc.ac.in

विज्ञापन संख्या R(HR)308-2022 दिनांक 10.09.2022:

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूरु, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए एक प्रमुख केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान है। राष्ट्र निर्माण में योगदान की अपनी परंपरा को कायम रखते हुए इसने अपने अस्तित्व की एक सदी को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसने कई नए बुनियादी ढांचे (भवन और उपकरण), अंतःविषय कार्यक्रम और शानदार संकाय स्थापित किए हैं। इसने उन्नत शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनने के मिशन की शुरुआत की है। संस्थान निम्नलिखित पद के लिए व्यक्तियों से आवेदन मांगता है, जिसे भारत सरकार के मानक नियमों और शर्तों पर विदेश सेवा के आधार पर अनुबंध/प्रतिनियुक्ति पर भरा जाना है।

क्रम संख्या	पद का नाम	इकाई	कुल रिक्तियों की संख्या	आयु सीमा (विज्ञापन की अंतिम तिथि के अनुसार)	वेतनमान
1	उप परियोजना अभियंता (सिविल) (Deputy Project Engineer (CIVIL))	परिसर प्रबंधन और विकास	01(UR)	50 वर्ष	7वें सीपीसी में स्तर-12 (Rs. 78,800-Rs. 2,09,200)

निर्धारित न्यूनतम योग्यता / अनुभव:

शैक्षणिक योग्यता: एम.ई./एम.टेक. सिविल इंजीनियरिंग में 55% अंकों के साथ।

अनुभव: एपीई के रूप में 8 साल का अनुभव या सरकार / स्वायत्त निकायों / पीएसयू में समकक्ष पद के साथ 5400/- रुपये का ग्रेड वेतन। हालांकि, वे व्यक्ति जिन्होंने कम से कम 8 वर्षों तक संस्थान में नियमित तौर पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर सहायक परियोजना अभियंता के पद पर काम किया है/कर रहे हैं, जिनके पास एमई/एम.टेक की शैक्षणिक योग्यता है और जिनका सेवा रिकॉर्ड अनुकरणीय रहा है, वे भी आवेदन कर सकते हैं [आयु सीमा लागू नहीं है]। अनुबंध पर नियुक्ति के मामले में, जिनके पास संबंधित क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर के इंजीनियर के पद पर काम करने का कम से कम 8 वर्ष का अनुभव है, जिन्होंने निजी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास / प्रबंधन के लिए काम किया हो, जैसे कि कॉर्पोरेट / निजी उद्योग या प्रतिष्ठित बुनियादी ढांचा फर्म या बिल्डर / संस्थान के साथ, तो वे भी आवेदन कर सकते हैं।

वांछनीय: आधुनिक शैक्षणिक या कॉर्पोरेट अथवा इसी तरह के बुनियादी ढांचे के विकास या संचालन या रखरखाव में अनुभव। सिविल निर्माण और विद्युतीय शक्ति प्रणालियों में आधुनिक प्रथाओं से परिचित।

प्रतिनियुक्ति पर विचार केंद्र/राज्य सरकारों या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान या विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान या पीएसयू के समान पद धारण करने वाले और/या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले अधिकारियों से किया जा सकता है।

नियम और शर्तें:

1. उप परियोजना अभियंता (सिविल) का पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है, अर्थात्, ऑर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग/चलने में अक्षमता/सेरेब्रल पाल्सी के साथ एक पैर प्रभावित (दाएं या बाएं) (ओएल) और श्रवण बाधित।
2. उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु में छूट भारत सरकार के संस्थान के लिए लागू मानदंड के अनुसार लागू है। पद के लिए अधिकतम आयु (सभी शर्तों सहित) छूट 55 वर्ष तक है।
3. पद 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर है।
4. संविदा नियुक्ति के लिए परिवीक्षा अवधि एक वर्ष है।
5. उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदनों और भौतिक रूप से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. प्रतिनियुक्ति पर विचार केंद्र/राज्य सरकारों या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान या विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान या पीएसयू के अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है
 - a. समान पद धारण करने वाले, और/या
 - b. विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।
7. निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव न्यूनतम आवश्यक योग्यताएं हैं और केवल यह तथ्य कि उम्मीदवार के पास ये मौजूद हैं, उसे साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का दावेदार नहीं बनाता है। संस्थान योग्यता और/या अनुभव के आधार पर साक्षात्कार के लिए भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8. डीपीई (सिविल) पद का चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा। हालाँकि, यदि आवश्यक समझा जाता है, तो संस्थान एक लिखित परीक्षा आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. सभी उम्मीदवारों को वर्तमान नियुक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए और उसे ऑनलाइन अपलोड करना चाहिए। हालांकि, अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना भी आवेदन पर विचार किया जाएगा, बशर्ते उम्मीदवार विधिवत हस्ताक्षरित वचनपत्र अपलोड करें कि साक्षात्कार के समय एनओसी जमा किया जाएगा।
10. अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना, आवेदन काफी पहले ही जमा कर दिए जाने चाहिए।
11. साक्षात्कार में भाग लेने के लिए बुलावा पत्र केवल चयनित उम्मीदवारों को डाक द्वारा भेजा जाएगा। उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी को बार-बार जांच लें। उन आवेदकों के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा जिन्हें शॉर्ट-लिस्ट नहीं किया गया है/साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है।
12. संस्थान बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संस्थान बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर विज्ञापन/भर्ती को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
13. संस्थान के पास ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित है। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए बाहरी उम्मीदवारों को मूल टिकट प्रस्तुत करने पर उनके झूठी/निवास के स्थान से बेंगलुरु आने और सबसे छोटे मार्ग से वापस जाने के लिए एसी2 में रेल किराए का भुगतान किया जाएगा।
14. जो व्यक्ति 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद संस्थान की सेवा में शामिल हो रहे हैं, वे नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, वे कर्मचारी जिन्होंने 31.12.2003 से पहले सेवा में प्रवेश किया और जो सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 द्वारा शासित थे- वे इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन जीपीएफ-सह-पेंशन-सह-ग्रेजुटी योजना के लिए पात्र होंगे।
15. संस्थान के पास सेवा के दौरान किसी भी समय उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए पूर्ववृत्त या दस्तावेजों को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज वास्तविक नहीं हैं, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी और अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी।
16. जिन उम्मीदवारों को स्नातक/मास्टर डिग्री के संबंध में सीजीपीए/जीपीए प्रणाली के तहत ग्रेडेशन प्रदान किया जाता है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सीजीपीए/जीपीए को उचित प्रतिशत में बदलने के लिए विश्वविद्यालय/संस्थान के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राप्त अंकों का सही प्रतिशत जमा करें। इसका प्रमाण (विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी पत्र) दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।

इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे 30.09.2022 को या उससे पहले शैक्षिक योग्यता, आयु, समुदाय, विकलांगता, अनुभव, एनओसी और अन्य के लिए अपने दावे का समर्थन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरें और प्रमाण पत्र अपलोड करें।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक: <http://recruitment.iisc.ac.in/NonTeaching/>

10.09.2022

रजिस्ट्रार